

## प्रेस नोट दिनांक-23.03.2023

(1). आज दिनांक 23.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। महोदया द्वारा शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(2). आज दिनांक-23.03.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु, क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 23.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानों पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(4). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 30नि0 श्री मुन्नीलाल चौकी सीतापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त बल्ला पुत्र बंदी निवासी मलकाना डिलौरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी:-

15 लीटर कच्ची शराब

### बरामदगी करने वाली टीम:-

1. 30नि0 श्री मुन्नीलाल चौकी सीतापुर

2. आरक्षी शुभम
3. आरक्षी अभिषेक सिंह

(5). आज दिनांक-23.03.2023 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा क्षेत्राधिकारी प्रज्ञान श्री अनुज कुमार मिश्र के साथ न्यायालय परिसर कर्वी एवं सदर लॉकप का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा न्यायालय परिसर सुरक्षा में लगी डियूटियों को चेक किया गया तथा डियूटी में मौजूद पुलिसकर्मियों को सतर्कता पूर्वक डियूटी करने हेतु निर्देश दिये गये तथा न्यायिक लॉकप का निरीक्षण कर डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

निरीक्षण के दौरान प्रभारी न्यायालय सुरक्षा श्री प्रमोद कुमार, उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में अवैध खनन की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिंद तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त जितेंद्र यादव पुत्र देवनारायण निवासी मिरिया पुरवा मजरा मऊ ब थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को अवैध रूप से खनन कर ट्रैक्टर मैसी में अवैध बालू लादकर परिवहन कर ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ट्रैक्टर मैसी बिना नम्बर को धारा 207 M.V. Act में सीज किया गया तथा आरटीओ व खनन विभाग को रिपोर्ट प्रेषित की गयी।

**बरामदगी करने वाली टीम:-**

1. थानाध्यक्ष भरतकूप श्री सूबेदार बिंद
2. वरि0उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह
3. आरक्षी वसीम खां
4. आरक्षी विकास कुमार
5. आरक्षी सतीश कुमार